

## प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना में सुधार की आवश्यकता

महत्त्वकांक्षी प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को लागू हुए करीब एक वर्ष का समय बीत चुका है और अब इसकी खामियाँ भी उजागर होने लगी हैं। वदिति हो कि यह योजना पिछले साल जनवरी में शुरू की गई थी। यह बात गौर करने वाली है कि मॉनसून के रुझान का असर फसल बीमा के नरिधारण पर देखने को मलिता है। यही वज़ह है कि पिछले वर्ष अच्छे मानसून के कारण मुनाफा काटने के बाद इस वर्ष ख़राब मानसून की भवषियवाणी के मद्देनज़र बीमा कम्पनियों पीछे हटती नज़र आ रही हैं।

### क्या है फसल बीमा योजना?

- हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है, वह किसान ही है जो खेतों में मेहनत करके समूचे देश का पेट भरता है, आज़ादी के 70 सालों बाद आज भी देश का किसान बर्दहाल है और आत्महत्या करने को मज़बूर है। किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में महत्त्वकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरम्भ किय़ा था जिसका उद्देश्य कम पैदावार या पैदावार के नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों को मदद मुहैया कराना था।
- इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च किये जाने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों द्वारा बीमा कम्पनियों को नश्चिति दर पर प्रीमियम का भुगतान किय़ा जाता है, लेकिन इसके लिये किसानों को पहले अपनी भूमिका पंजीकरण कराना होता है, बदले में बीमा कम्पनियों उन्हें मुआवजा देती हैं।

### योजना को कमज़ोर बनाती समस्याएँ

- इस योजना के तहत खरीफ मौसम के लिये पंजीकरण करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई के आसपास होती है, वहीं रबी फसलों के लिये 31 दिसम्बर तक का समय दिया जाता है। वदिति हो कि नोटबंदी के कारण पिछले साल नवंबर-दिसंबर में वित्तीय सेवाओं पर पड़े प्रभाव को देखते हुए सरकार ने 2016-17 की रबी फसल के लिये बीमा योजना में पंजीकरण की समयसीमा 31 दिसंबर, 2016 से बढ़ाकर 10 जनवरी, 2017 कर दी थी।
- जब मॉनसून का रुझान साफ हो चुका है और इस समय तक दक्षिण भारत में सूखे की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है तो ऐसे में बीमा कंपनियों को भारी दावों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर पुनर्बीमा कंपनियों इन दावों का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं।
- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्राकृतिक आपदा से फसल को हुए नुकसान के बाद भी किसानों को मुआवजा प्राप्त करने के लिये आमरण अनशन करना पड़ता है। योजना नियमों में वसिगत के कारण कारगर साबित नहीं हो रही है।

### क्या हो आगे का रास्ता ?

- वर्तमान समय में ज़्यादातर राज्यों में, इस योजना के तहत बीमा कवर के लिये बोली लगाई जाती है और यह बोली एक सत्र (छह महीने) या दो सीजन (एक वर्ष) के लिये लगाई जाती है। यहाँ समस्या यह है कि बीमाकर्ता जो एक सीजन में बीमा कवर के लिये बोली जीतते हैं उन्हें अगले सीजन में आने के लिये बाध्य नहीं किय़ा जा सकता है।
- इससे होता यह है कि जिस साल मानसून बेहतर रहता है उस वर्ष बीमाकर्ता उल्लेखनीय लाभ कमाते हैं लेकिन जिस वर्ष मानसून की प्रतिकूल परिस्थितियों उत्पन्न होती हैं उस वर्ष वे बीमा कवर की ज़िम्मेदारी ही नहीं लेते।
- गौरतलब है कि इस योजना में किसानों को बहुत ही कम दर पर प्रीमियम देना होता है क्योंकि अधिकांश भुगतान सरकार करती है अतः सरकार को चाहिये कि प्रत्येक सीजन में बोली लगाने के बजाय बीमाकर्ता कंपनियों के लिये कुछ वर्षों का समय तय कर दिया जाए, ताकि एक बार लाभ कमाने के बाद कम्पनियों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसानों के साथ बनी रहें।
- कम्पनियों इसलिये भी डरती हैं कि लाभ या हानि दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें ही सभी दावों का नपिटारा करना होता है अतः सरकार को आगे आकर 'रिस्क फैक्टर' को कम करना होगा।
- वर्तमान में फसल बीमा के लिये किसानों से प्रीमियम राशाली जाती है जिसके अनुसार फसल के नुकसान होने पर बीमा राशालिलिती है। यदि फसल बीमे के प्रीमियम की राशालि बढ़ा दी जाए, तो इससे किसानों को उनकी फसल नष्ट हो जाने पर उनके दावे की पात्रता भी मज़बूत होगी।
- वदिति हो कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष वदिशी नविश की मंजूरी दे रखी है। ऐसे में भारत में बीमा क्षेत्र में आने वाली व कार्यरत वदिशी कंपनियों को कृषि क्षेत्र में 40 प्रतिशत नविश करने की अनिवार्यता लागू करना एक महत्त्वपूर्ण सुधार हो सकता है।
- यदि किसी एक ही गाँव के अलग-अलग क्षेत्रों में अतविष्टिया पाला पड़ता है, तो भी फसल प्रभावित होती है जबकि ऐसे गाँवों के अन्य क्षेत्र में सामान्य उत्पादन को देखते हुए उसे बीमा लाभ से वंचित कर दिया जाता है। इससे प्रीमियम अदा कर चुके पीड़ित किसानों को बीमे का शत-प्रतिशत लाभ नहीं मलि पाता। नियमों की इस प्रकार की वसिगत को दूर किय़ा जाना चाहिये, ताकि वास्तविक हानि वाले किसान को लाभ मलि सके।

### नश्चिर्ष

देश की एक बड़ी आबादी गाँवों में रहती है और कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में किसानों की खुशहाली की बात सभी करते हैं और उनके लिये योजनाएँ भी बनाते हैं फरि भी मूलभूत समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी कहीं असफल योजनाओं की सूची में शामिल न हो जाए इसके लिये सरकार को उपरोक्त सुझावों को अमल में लाना चाहिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/fasal-bima-yojana-needs-fine-tuning>